



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2010/पौष 21, 1931

No. 17]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2010/PAUSA 21, 1931

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
अधिसूचना

मुम्बई, 11 जनवरी, 2010

सं. एल. ए. डी. - एन. आर. ओ / जी. एन. / 2009-

10/27/190455.— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, जयपुर
स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्टॉक
एक्सचेंज बिल्डिंग, जे.एल.एन.मार्ग, मालवीया नगर, जयपुर-302017
में स्थित है द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की
धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर
विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के
हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्वारा,
प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को मान्यता का
नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 9 जनवरी, 2010
को प्रारम्भ होने वाली और 8 जनवरी, 2011 को समाप्त होने वाली
एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिभूतियों में संविदाओं की बाबत
इसमें इसके नीचे कथित शर्तों अथवा जो इसके पश्चात् विहित या
अधिरूपित की जायें के अध्वधीन प्रदान करता है :

- एक्सचेंज विनिधानकर्ता (निवेशक) सेवा निधि में निधियों
का अभिदाय करेगा।
- एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा अधि-
रूपित समस्त विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करने के
पश्चात् ही प्रतिभूतियों में व्यापार प्रारम्भ कर सकता है।

डॉ. के. एम. एब्रहाम, पूर्णकालिक सदस्य
[विज्ञापन/III/4/असा./69 जेडबी/09]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th January, 2010

No. LAD-NRO/GN/2009-10/27/190455.—The
Securities and Exchange Board of India, having
considered the application for renewal of recognition made
under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation)
Act, 1956 by Jaipur Stock Exchange Limited having its
registered office at Stock Exchange Building, JLN Marg,
Malviya Nagar, Jaipur-302017 and being satisfied that it
would be in the interest of the trade and also in the public
interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers
conferred under Section 4 of the Securities Contracts
(Regulation) Act, 1956, renewal of recognition of the said
Exchange under Section 4 of the said Act for a period of
one year commencing on the 9th day of January, 2010 and
ending on 8th day of January, 2011 in respect of contracts
in securities subject to the conditions stated herein below
or as may be prescribed or imposed hereafter :

- The Exchange shall contribute funds towards
Investor Services Fund.
- The Exchange can commence trading in securities
only after complying with all the regulatory
requirements imposed by the Securities and
Exchange Board of India.

Dr. K. M. ABRAHAM, Whole-Time Member

[ADVT./III/4/Ext./69ZB/09]